

# Dan

## Chapter 8

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אֲחֵרֵי בְּשָׁנֹת שְׁלוֹשׁ לְמַלְכוּת בְּלָאֲשָׁצָר הַמֶּלֶךְ חָזֹן נִרְאָה אֵלָיו אֲנִי דָנְיָאֵל אַחֵרֵי 1  
बाद-में दानियेल मैं मुझे दिखाई-दिया मुझे मैं दानियेल बाद-में  
H1840 H0589 H0413 H7200 H2377 H4428 H1112 H4438 H7969 H8141

בְּתַחֲלָה: אֵלָיו הַנִּרְאָה  
पहले मुझे जो-दिखाई-दिया  
H8462 H0413 H7200

बेलशस्सर के शासन काल के तीसरे साल मैंने यह दर्शन देखा। यह उस दर्शन के बाद का दर्शन है।

וַאֲרָאָהּ בְּחֻזֹן וַיְהִי בְּרֵאֲתָי וְאֲנִי בְּשׁוּשַׁן הַבְּיֵרָה אֲשֶׁר בְּעִלְמָם הַמְּדִינָה 2  
और-देखा-मैंने दर्शन-में और-हुआ और-मैं और-मैं-शूशन राजधानी जो में-एलाम प्रांत  
H4082 H1002 H7800 H0589 H7200 H1961 H2377 H7200

וַאֲרָאָהּ בְּחֻזֹן וְאֲנִי עַל-אוּלַּי: אוּבַל  
और-देखा-मैंने दर्शन-में और-मैं पर-नाले ऊलाई  
H1961 H0589 H2377 H7200 H0195 H0180

मैंने देखा कि मैं शूशन नगर में हूँ। शूशन एलाम प्रांत की राजधानी थी। मैं ऊलै नदी के किनारे पर खड़ा था।

וַאֲשָׂא וְאֲרָאָהּ וַיְהִי עֵינַי וְאֲרָאָהּ אֵיל אֶחָד עֹמֵד לְפָנַי הָאֵבֶל וְלוֹ 3  
और-उठाई-मैंने और-देखा और-देखो और-देखा और-मैंने मेढ़ा एक खड़ा के-सामने के-नाले-के और-उसके  
H5375 H2009 H7200 H0259 H5975 H0180 H0180

קָרְנִים וְהַקָּרְנִים גְּבוּחֹת וְהָאֶחָת גְּבוּחָה מִן-הַשְּׁנִית וְהַגְּבוּחָה עָלָה בְּאַחֲרָנָה:  
सींग और-सींग ऊँचे और-एक ऊँचा से-दूसरे और-ऊँचा निकला बाद-में  
H1364 H0259 H1364 H8145 H5927 H0314

मैंने आँखें ऊपर उठाई तो देखा कि ऊलै नदी के किनारे पर एक मेढ़ा खड़ा है। उस मेढ़े के दो लम्बे लम्बे सींग थे। यद्यपि उसके दोनों ही सींग लम्बे थे। पर एक सींग दूसरे से बड़ा था। लम्बा वाला सींग छोटे वाले सींग के बाद में उगा था।

רְאִיתִי אֶת-הָאֵיל מְנַגַּח סִיג-מָרְטָא-תָּה מְנַגַּח וְנִמְנָה וְצָפוֹנָה וְנִנְבָּה וְכָל- 4  
देखा-मैंने को-मेढ़ा सींग-मारता-था सींग-मारता-था पश्चिम-की-ओर पश्चिम-की-ओर और-उत्तर-की-ओर और-दक्षिण-की-ओर और-सब-  
H0853 H7200 H5055 H3220 H6828 H5045 H3605

חַיּוֹת לֹא-יַעֲמְרוּ לְפָנָיו וְאֵין מַצִּיל מִיָּדוֹ וְעָשָׂה כְּרָצֹנוֹ  
जन्तु नहीं-खड़े-थे उसके-सामने और-कोई-नहीं और-कोई-नहीं छड़ानेवाला उसके-हाथ-से और-किया और-इच्छा-के-अनुसार  
H3808 H5975 H6440 H0369 H5337 H3027 H7522

וְהִגְדִּיל: और-बड़ा-हुआ  
H1431

मैंने देखा कि वह मेढ़ा इधर उधर सींग मारता फिरता है। मैंने देखा की वह मेढ़े कभी पश्चिम की ओर दौड़ता है तो कभी उत्तर की ओर, और कभी दक्षिण की ओर उस मेढ़े को कोई भी पशु रोक नहीं पा रहा है और न ही कोई दूसरे पशुओं को बचा पा रहा है। वह मेढ़ा वह सब कुछ कर सकता है, जो कुछ वह करना चाहता है। इस तरह से वह मढ़ा बहुत शक्तिशाली हो गया।

5 וַאֲנִי וְהָיִיתִי מִבֵּין וְהָיָה צְפִירָה-הָעֵימֹם בָּא מִן-הַמְּעֵרָב עַל-פְּנֵי  
 और-में और-था था समझ-रहा-था और-देखी बकरा- बकरियों-का आया से- पश्चिम पर- चेहरे  
[H6440](#) [H4628](#) [H0935](#) [H5795](#) [H6842](#) [H2009](#) [H0995](#) [H1961](#) [H0589](#)

כָּל-הָאָרֶץ וְאֵין נוֹנֵעַ בְּאָרֶץ וְהַצִּפִּיר קָרָן חֲזוֹת בֵּין עֵינָיו:  
 सारी- और-नहीं और-था छूता-था पृथ्वी-को और-बकरा सींग दिखनेवाला बीच उसकी-आँखों-के  
[H0996](#) [H2380](#) [H6842](#) [H0776](#) [H5060](#) [H0369](#) [H0776](#) [H3605](#)

मैं उस मेढ़े के बारे में सोचने लगा। मैं अभी सोच ही रहा था कि पश्चिम की ओर से मैंने एक बकरे को आते देखा। यह बकरा सारी धरती पर दौड़ गया। किन्तु उस बकरे के पैर धरती से छुए तक नहीं। इस बकरे के एक लम्बा सींग था। जो साफ—साफ दिख रहा था, वह सींग बकरे की होनी आँखों के बीचों—बीच था।

6 וַיָּבֹא עַד-הָאֵיל בְּעַל הַקְּרָנִים אֲשֶׁר רָאִיתִי עִמָּדָה לְפָנַי הָאֵיל וַיִּרְץ  
 और-आया तक- मेढ़े मेढ़े-के सींगों-के जिससे देखा-मैंने खड़े के-सामने के-नाले-के और-दौड़ा  
[H0935](#) [H5704](#) [H1167](#) [H2700](#) [H5975](#) [H07200](#) [H6440](#) [H0180](#) [H7323](#)

אֵלָיו וּבַחֲמַת כַּחַו:  
 उसकी-ओर में-क्रोध अपनी-शक्ति-के  
[H2534](#) [H0413](#)

फिर वह बकरा दो सींग वाले मेढ़े के पास आया। (यह वही मेढ़ा था जिसे मैंने ऊलै नदी के किनारे खड़ा देखा था।) वह बकरा क्रोध से भरा हुआ था। सो वह मेढ़े की तरफ लपका।

7 וַרְאִיתִיו וּמִנִּיעַ אֲצָל הָאֵיל וַיִּתְמַרְמַר אֵלָיו וַיִּנָּה וְאֶת-הָאֵיל וַיִּשְׁבֵּר  
 और-देखा-मैंने-उसे पस पहुँचता-था मेढ़े-के पास और-क्रोधित-हुआ उस-पर उस-को-मेढ़े और-तोड़े  
[H7200](#) [H5060](#) [H0681](#) [H4843](#) [H0413](#) [H5221](#) [H0853](#) [H7665](#)

אֶת-שְׁתֵּי קְרָנָיו וְלֹא-הָיָה כַחַ שְׁכִיבָה לְפָנָיו וַיִּשְׁלִיכֵהוּ אֶרְצָה  
 को- दोनों और-नहीं- उसके-सींग और-फेंका-उसे भूमि-पर  
[H8147](#) [H0853](#) [H3808](#) [H1961](#) [H5975](#) [H6440](#) [H7993](#) [H0776](#)

וַיִּרְמָסֵהוּ וְלֹא-הָיָה מִצִּיל לְאֵיל מִנְדָּו:  
 और-रौंदा-उसे और-नहीं- था छुड़ानेवाला को-मेढ़े उसके-हाथ-से  
[H7429](#) [H3808](#) [H1961](#) [H5337](#) [H3027](#)

बकरे को उस मेढ़े की तरफ भागते हुए मैंने देखा। वह बकरा गुस्से में आग बबूला हो रहा था। सो उसने मेढ़े के दोनों सींग तोड़ डाले। मेढ़ा बकरे को रोक नहीं पाया। बकरे ने मेढ़े को धरती पर पछाड़ दिया और फिर उस बकरे ने उस मेढ़े को पैरों तले कुचल दिया। वहाँ उस मेढ़े को बकरे से बचाने वाला कोई नहीं था।

8 וַצְפִיר וְהָעֵימֹם הַגְּדִיל עַד-מְאֹד וַיִּבְרַח וַיִּשְׁבְּרָה נְשִׁבְרָה וַיִּקְרַן הַגְּדִילָה  
 और-बकरा बकरियों-का बड़ा-हुआ तक- बहुत और-जब-शक्तिशाली-हुआ सींग टूटा  
[H6842](#) [H5795](#) [H1431](#) [H5704](#) [H3966](#) [H7665](#)

וַתִּשְׁלַח וַחֲזוֹת אַרְבַּע תַּחֲתָיָהּ לְאַרְבַּע רוֹחוֹת הַשָּׁמַיִם:  
 और-निकले और-दिखनेवाले चार पर-जगह-उसकी-जगह-पर चार-को-आकाश-की  
[H5927](#) [H2380](#) [H0702](#) [H8478](#) [H0702](#) [H7307](#) [H8064](#)

सो वह बकरा शक्तिशाली बन बैठा। किन्तु जब वह शक्तिशाली बना, उसका बड़ा सींग टूट गया और फिर उस बड़े सींग की जगह चार सींग और निकल आये। वे चारों सींग आसानी से दिखाई पड़ते थे। वे चार सींग अलग—अलग चारों दिशाओं की ओर मुड़े हुए थे।

9 וּמִן-הָאֶחָת מִן-הָאֶחָת מִן-הָאֶחָת וַיִּצָא קְרָן-אֶחָת מִצְעִירָה  
 और-से- एक एक-से-उनमें-से निकला सींग-एक छोटा  
[H0259](#) [H1992](#) [H3318](#) [H0259](#) [H4704](#) [H1431](#) [H0413](#)

וְאֵל-הַמְּזֻרָח וְאֵל-הַצָּבִי:  
 और-की-ओर-पूर्व और-की-ओर-शोभा  
[H0413](#) [H4217](#)

फिर उन चार सींगों में से एक सींग में एक छोटा सींग और निकल आया। वह छोटा सींग बढ़ने लगा और बढ़ते—बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। यह सींग दक्षिण—पूर्व की ओर बढ़ा। यह सींग सुन्दर धरती की ओर बढ़ा।

10 ותגדל ואתה ערב צבא השמים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים  
 और-बड़ा-हुआ तब-सेना आकाश-की भूमि-पर और-गिराया और-से-सेना और-से-तारों  
[H3556](#) [H5704](#) [H1431](#) [H8064](#) [H5307](#) [H0776](#)

ותרמסם:  
 और-रौंदा-उनको  
[H7429](#)

वह छोटा सींग बढ़ कर बहुत बड़ा हो गया। उसने बढ़ते बढ़ते आकाश छू लिया। उस छोटे सींग ने, यहाँ तक कि कुछ तारों को भी धरती पर पटक दिया और उन सभी तारों को पैरों तले मसल दिया।

11 ועד ושר הצבא הגדיל ומנונו [הרים] (הורם) התמיד ועשה מקומו  
 और-तक सरदार-सेना-के बड़ा-हुआ और-उससे और-फेका-गया और-फेका-गया नित्य-बलि नित्य-बलि स्थान  
[H4349](#) [H7993](#) [H8548](#) [H7311](#) [H1431](#) [H8269](#) [H5704](#)

מקדשו:  
 उसके-पवित्र-स्थान-का  
[H4720](#)

वह छोटा सींग बहुत मज़बूत हो गया और फिर वह तारों के शासक (परमेश्वर) के विरुद्ध हो गया। उस छोटे सींग ने उस शासक (परमेश्वर) को अर्पित की जाने वाली दैनिक बलियों को रोक दिया। वह स्थान जहाँ लोग उस शासक (परमेश्वर) की उपासना किया करते थे, उसने उसे उजाड़ दिया

12 וצבא ותנתן על-התמיד בפשע ומנונו [הרים] (הורם) אמת ארצה ועשתה והצליחה:  
 और-सेना दी-जाएगी पर-नित्य-बलि नित्य-बलि अपराध-में और-उससे और-फेका-गया और-फेका-गया सच्चाई भूमि-पर और-किया और-सफल-हुआ  
[H0776](#) [H0571](#) [H7993](#) [H6588](#) [H8548](#) [H5414](#)

और उनकी सेना को भी हरा दिया और एक विद्रोही कार्य के रूप में वह छोटा सींग दैनिक बलियों के ऊपर अपने आपको स्थापित कर दिया। उसने सत्य को धरती पर दे पटक दिया। उस छोटे सींग ने जो कुछ किया उस सब में सफल हो गया।

13 ואשמעה ואחר קדוש מדרב ויאמר אחר קדוש לפלמוני המדרב עד-  
 और-सुना-मैंने एक-और-कहा बोलते-हुए पवित्र-जन एक-पवित्र-जन एक-बोलनेवाले तब-के-लिए  
[H5704](#) [H1696](#) [H6422](#) [H6918](#) [H0259](#) [H0559](#) [H1696](#) [H6918](#) [H0259](#) [H8085](#)

מתי מתי והפושע שם תת וקדש וצבא מרמס:  
 कब-तक दर्शन और-अपराध और-उजाड़नेवाला देना और-पवित्र-स्थान और-सेना-को और-के-लिए  
[H4823](#) [H6944](#) [H5414](#) [H8074](#) [H6588](#) [H8548](#) [H2377](#) [H4970](#)

फिर मैंने किसी पवित्र जन को बोलते सुना और उसके बाद मैंने सुना कि कोई दूसरा पवित्र जन उस पहले पवित्र जन को उत्तर दे रहा है। पहले पवित्र जन ने कहा, “यह दर्शन दर्शाता है कि दैनिक बलियों का क्या होगा यह उस भयानक पाप के विषय में है जो विनाश कर डालता है। यह दर्शाता है कि जब लोग उस शासक के पूजास्थल को तोड़ डालेंगे तब क्या होगा यह दर्शन दर्शाता है कि जब लोग उस समूचे स्थान को पैर तले रौंदेंगे तब क्या होगा। यह दर्शन दर्शाता है कि जब लोग तारों के ऊपर पैर धरेंगे तब क्या होगा किन्तु यह बातें कब तक होती रहेंगी”

14 ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונגדק קדש:  
 और-कहा-उसने मुझसे तब साझ सुबह दो-हजार और-तीन सौ और-शुद्ध-किया-जाएगा पवित्र-स्थान  
[H6944](#) [H6663](#) [H3967](#) [H7969](#) [H0505](#) [H1242](#) [H6153](#) [H5704](#) [H0413](#) [H0559](#)

दूसरे पवित्र जन ने कहा, “दो हजार तीन सौ दिन तक ऐसा ही होता रहेगा और फिर उसके बाद पवित्र स्थान को फिर से स्थापित कर दिया जायेगा।”

15 ויהי כראתי אני דניאל את-החזון כי-ראתי את-העמוד והנה עמד לפני  
 और-हुआ और-देखा-मैंने मैं दानियेल को-दानियेल मैं जब-देखा-मैंने और-हुआ मेरे-सामने खड़ा और-देखो समझ और-माँगा-मैंने दर्शन  
[H5048](#) [H5975](#) [H2009](#) [H0998](#) [H1245](#) [H2377](#) [H0853](#) [H1840](#) [H0589](#) [H7200](#) [H1961](#)

גבר: כמראה  
 पुरुष-का रूप-जैसा-  
[H1397](#) [H4758](#)

मैं, दानियेल ने यह दर्शन देखा था, और यह प्रयत्न किया कि उसका अर्थ समझ लूँ। अभी मैं इस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था कि मनुष्य के जैसा दिखने वाला कोई अचानक आ कर मेरे सामने खड़ा हो गया।

16  
 אֶת- לְהִלִּיזְוֹ הַבֵּן נִבְרִיאֵל וַיֹּאמֶר וַיִּקְרָא אוֹלָי בֵּין אֲדָם קוֹל- וַאֲשַׁמֶּע 16  
 को- इसे समझा जिब्राएल और-कहा और-पुकारा ऊलाई बीच मनुष्य-की आवाज़- और-सुना-मैंने  
 H0853 H1975 H0995 H1403 H0559 H7121 H0195 H0996 H0120 H8085

הַמְרָאָה:  
 दर्शन  
 H4758

इसके बाद मैंने किसी पुरुष की वाणी सुनी। यह वाणी ऊलै नदी के ऊपर से आ रही थी। उस आवाज़ ने कहा, “जिब्राएल, इस व्यक्ति को इसके दर्शन का अर्थ समझा दो।”

17  
 וַיֹּאמֶר פָּנָי עַל- וַאֲפֹלָה נִבְעָתַי וּבְבֹאֵי עַמִּי אֶצֶל וַיָּבֵא 17  
 और-कहा-उसने मुँह-अपने पर- और-गिरा-मैं डर-गया-मैं और-जब-आया-वह मेरे-खड़े-होने-के पास और-आया  
 H0559 H6440 H5307 H1204 H0935 H5975 H0681 H0935

אֵלַי הַבֵּן בֶּן- אֲדָם כִּי לְעֵת- קֵץ הַחַיִּים:  
 मुझसे समझ पुत्र- आदम-के क्योंकि के-लिए-समय- अंत दर्शन-का  
 H0413 H0995 H0120 H6256 H7093 H2377

सो जिब्राएल जो किसी मनुष्य के समान दिख रहा था, जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ आ गया। वह जब मेरे पास आया तो मैं बहुत डर गया। मैं धरती पर गिर पड़ा। किन्तु जिब्राएल ने मुझसे कहा, “अरे मनुष्य, समझ ले कि यह दर्शन अंत समय के लिये है।”

18  
 כִּי וַיִּנְעַח- אֶרְצָה פָּנָי עַל- נִדְרָמוֹתַי עָמִי וּבְדַבְרוֹ וַיָּבֵא 18  
 मुझे और-छुआ- भूमि-की-ओर मुँह-अपने पर- गहरी-नींद-आई-मुझे मुझसे और-जब-बोल-रहा-था-वह  
 H5060 H0776 H6440 H7290 H1696

וַיַּעֲמִדְנִי עַל- עַמִּי:  
 और-खड़ा-किया-मुझे पर- मेरे-खड़े-होने  
 H5975 H5975

अभी जिब्राएल बोल ही रहा था कि मुझे नींद आ गयी। नींद बहुत गहरी थी। मेरा मुख धरती की ओर था। फिर जिब्राएल ने मुझे छुआ और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया।

19  
 לְמוֹעַד כִּי הַזֶּעַם בְּאַחֲרֵית יְהוָה אֲשֶׁר- אֶת מוֹדִיעַךְ הַנְּנִי וַיֹּאמֶר 19  
 के-लिए-नियत-समय क्योंकि क्रोध-के में-अंत होगा जो- को- जताता-हूँ-तुझे देखो-मैं और-कहा-उसने  
 H4150 H2195 H0319 H1961 H0853 H3045 H2009 H0559

קֵץ:  
 अंत-का  
 H7093

जिब्राएल ने कहा, “देख, मैं तुझे अब उस दर्शन को समझाता हूँ। मैं तुझे बताऊँगा कि परमेश्वर के क्रोध के समय के बाद में क्या कुछ घटेगा।

הָאֵיל הָאֲשֶׁר- רְאִיתָ בְּעַל הַקְּנִיִּים מַלְכֵי מָדַי וּפָרְס:  
 मेंढा जिसे- देखा-तूने वाला सींगों-के राजा सींगों-के मादी और-फ़ारस  
 H6842 H7200 H1167 H4428 H4074 H6539

“तूने दो सींगों वाला मेढा देखा था। वे दो सींग हैं मादी और फारस के दो देश।

21  
 וְהַצִּפּוֹר וְהַשְּׁעִיר מֶלֶךְ יָוָן וְהַקְּרָן הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר בֵּין- עֵינָיו הָאֵל הַמֶּלֶךְ 21  
 और-बकरा बालोंवाला राजा यावान-का और-सींग बड़ा जो बीच-के उसकी-आँखों-के राजा वह  
 H6842 H4428 H3120 H4428 H0996 H0996 H4428

הָרִאשׁוֹן:  
 पहला  
 H7223

वह बकरा यूनान का राजा है। उसकी दोनों आँखों के बीच का बड़ा सींग वह पहला राजा है।

וְלֹא	יַעֲמֹדְנָה	מִגּוֹי	מַלְכוּת	אַרְבַּע	תַּחֲתֶיהָ	אַרְבַּע	וַתַּעֲמֹדְנָה	וַהֲנַשְׁבֵּרְתָּ	22
और-नहीं	खड़े-होंगे	से-जाति	राज्य	चार	उसकी-जगह-पर	चार	और-खड़े-हुए	और-टूटा-हुआ	
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5975</a>		<a href="#">H4438</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H7665</a>	

בְּכֹחוֹ  
उसकी-शक्ति-में

वह सींग टूट गया और उसके स्थान पर चार सींग निकल आये। वे चार सींग चार राज्य हैं। वे चार राज्य, उस पहले राजा के राष्ट्र से प्रकट होंगे किन्तु वे चारों राज्य उस पहले राजा से मज़बूत नहीं होंगे।

וּמִבֵּין	פְּנִים	עַז	מֶלֶךְ	יַעֲמֹד	הַפְּשָׁעִים	כַּהֲתֵם	מַלְכוּתָם	וּבְאַחֲרֵיתָ	23
और-समझनेवाला	मुखवाला	कठोर-	राजा	खड़ा-होगा	अपराधी	जब-पूरे-होंगे	उनके-राज्य-के	और-अंत-में	
<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H5794</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H6586</a>	<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H4438</a>	<a href="#">H0319</a>	

חִידוֹת:  
पहेलियों-को  
[H2420](#)

“जब उन राज्यों का अंत निकट होगा, तब वहाँ एक बहुत साहसी और क्रूर राजा होगा। यह राजा बहुत मक्कार होगा। ऐसा उस समय घटेगा जब पापियों की संख्या बढ़ जायेगी।

וְהַצְלִיחַ	יִשְׁחִית	וּנְפִלְאוֹת	בְּכֹחוֹ	וְלֹא	כֹחוֹ	וְעֲצֻם		24
और-सफल-होगा	नष्ट-करेगा	और-आश्चर्यजनक	अपनी-शक्ति-में	और-नहीं	उसकी-शक्ति	और-शक्तिशाली-होगी		
	<a href="#">H7843</a>	<a href="#">H6381</a>		<a href="#">H3808</a>				

וְעֲשֶׂה  
और-करेगा  
וְהִשְׁחִית  
और-नष्ट-करेगा  
עֲצוּמִים  
शक्तिशाली-को  
וְעַם-  
और-लोगों-  
קְדָשִׁים:  
पवित्र-के  
[H6918](#)

यह राजा बहुत शक्तिशाली होगा किन्तु उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं होगी। यह राजा भयानक तबाही मचा देगा। वह जो कुछ करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी। वह शक्तिशाली लोगों—यहाँ तक कि परमेश्वर के पवित्र लोगों को भी नष्ट कर देगा।

וְשָׁלוֹם	יִגְדִיל	וּבְלִבּוֹ	בְיָדוֹ	מִרְמָה	וְהַצְלִיחַ	שְׁכָלוֹ	וְעַל-	25
और-शांति-में	बड़ा-होगा	और-अपने-हृदय-में	उसके-हाथ-में	छल	और-सफल-होगी	उसकी-चतुराई	और-पर-	
<a href="#">H7962</a>	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4820</a>		<a href="#">H7922</a>		

וְשָׁבַר:  
तोड़ा-जाएगा  
יָד  
हाथ  
וּבְאַפְס  
और-बिना  
יַעֲמֹד  
खड़ा-होगा  
שָׂרִים  
सरदारों-के  
שָׂר-  
सरदार-  
וְעַל-  
और-के-विरुद्ध-  
רְבִים  
बहुतों-को  
יִשְׁחִית  
नष्ट-करेगा  
[H7843](#)

“यह राजा बहुत चुस्त और मक्कर होगा। वह अपनी कपट और झूठों के बल पर सफलता पायेगा। वह अपने आप को सबसे बड़ा समझेगा। लोगों को वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के नष्ट करवा देगा। यहाँ तक कि वह राजाओं के राजा (परमेश्वर) से भी युद्ध का जतन करेगा किन्तु उस क्रूर राजा की शक्ति का अंत कर दिया जायेगा और उसका अंत किसी मनुष्य के हाथों नहीं होगा।

כִּי	הַחֲזוֹן	סֵתֵם	וְאַתָּה	הוּא	אַמֶּת	נֹאמַר	אֲשֶׁר	וְהִבְקֵר	הָעָרָב	וּמִרְאֵה	26
क्योंकि	दर्शन	बंद-कर	और-तू	है	सच्चा	कहा-गया	जो	और-सुबह-का	साँझ-का	और-दर्शन	
	<a href="#">H2377</a>			<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H1242</a>	<a href="#">H6153</a>	<a href="#">H4758</a>	

רְבִים:  
बहुतों  
לְיָמִים  
के-लिए-दिनों  
[H3117](#)

“उन भक्तों के बारे में यह दर्शन और वे बातें जो मैंने कही हैं, सत्य हैं। किन्तु इस दर्शन पर तू मुहर लगा कर रख दे। क्योंकि वे बातें अभी बहुत सारे समय तक घटने वाली नहीं हैं।”

הַמֶּלֶךְ राजा-का <a href="#">H4428</a>	מְלָאכָת काम <a href="#">H4399</a>	אֶת- को- <a href="#">H0853</a>	וַאֲשֶׁר और-किया-मैंने <a href="#">H0853</a>	וַאֲקֹמ और-उठा-मैं <a href="#">H0853</a>	יָמִים दिनों-तक <a href="#">H3117</a>	וְנִחַלִּיתִי और-बीमार-रहा-मैं <a href="#">H1961</a>	נִהְיִיתִי थक-गया <a href="#">H1961</a>	דָּנִיֵּאל दानियेल <a href="#">H1840</a>	וְאֵנִי और-मैं <a href="#">H0589</a>
<p>פּ — מְבִיֵן : — समझनेवाला <a href="#">H0995</a></p>									
<p>וְאֵין : — और-कोई-नहीं <a href="#">H0369</a></p>									
<p>עַל- הַמְּרָאָה — दर्शन <a href="#">H4758</a></p>									
<p>וְאֲשַׁתְּוִמָּם और-विस्मित-था-मैं <a href="#">H8074</a></p>									

उस दिव्य दर्शन के बाद में मैं दानियेल, बहुत कमजोर हो गया और बहुत दिनों तक बीमार पड़ा रहा। फिर बीमारी से उठकर मैंने लौटकर राजा का कामकाज करना आरम्भ कर दिया किन्तु उस दिव्य दर्शन के कारण मैं बहुत व्याकुल रहा करता था। मैं उस दर्शन का अर्थ समझ ही नहीं पाया था।